



एमएसीएस - आघारकर अनुसंधान संस्थान

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधिन स्वायत्त संस्थान)

MACS - Agharkar Research Institute

(An Autonomous Institute under

Department of Science & Technology, Govt. of India)



**ADVT/RecT/16/SP-364/2024-25**



जूनियर रिसर्च फेलो पद के लिए आवेदन (2 पद )

**Application for Junior Research Fellow (2 No.)**

\*\*\*

इस संस्थान के विभिन्न विषयगत समूहों में आरजीएसटीसी, मुंबई प्रायोजित परियोजना (एसपी-364) के अंतर्गत 'जूनियर रिसर्च फेलो' के अस्थायी पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन अगले पृष्ठ पर उपलब्ध है।

Applications are invited from eligible candidates for the temporary post of 'Junior Research Fellow' under **RGSTC, Mumbai Sponsored Project (SP-364)** in the various thematic Groups of this Institute. Detailed advertisement is available on the subsequent page.

### **IMPORTANT DATES & LINK**

<b>Commencement of Online Application</b>	3 <sup>rd</sup> March 2025
<b>Last Date to Submit the Online Application</b>	15 <sup>th</sup> March 2025
<b>Online Application Link</b>	<a href="http://arijob.ourlib.in">http://arijob.ourlib.in</a>

निदेशक, एआरआई/ Director, ARI



एमएसीएस - आघारकर अनुसंधान संस्थान

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधिन स्वायत्त संस्थान)

MACS - Agharkar Research Institute  
(An Autonomous Institute under  
Department of Science & Technology, Govt. of India)



ADVT/RecT/16/SP-364/2024-25

**ONLINE INTERVIEW FOR TEMPORARY POSITION OF 'JUNIOR RESEARCH FELLOW' IN THE VARIOUS THEMATIC GROUP.**

Particulars	Description		
1. Position/s & No.	<b>Junior Research Fellow (2 No)</b>		
2. Funding Agency, Title, Period of the Project & Post Code	<b>RGSTC, Mumbai Sponsored Project (SP-364)</b> Titled " <i>Sustainable Utilization of Medicinal Plant Resources in Maharashtra</i> " Period up to: 08/09/2027 Post Code: RGSTC/SP-364/JRF/2025		
3. Name of the Co-Ordinator/ Principal Investigator's	Dr. P.P. Kulkarni, Scientist- F Dr. R.K. Choudhary, Scientist- E Dr. Mandar Datar, Scientist- E Dr. Pratibha Srivastava, Scientist- D		
4. Group/ Division	Bioprospecting / Biodiversity & Paleobiology (Plant)		
5. Qualifications	<b>Position</b>	<b>Essential</b>	<b>Desirable</b>
	Junior Research Fellow (One No.) in Bioprospecting Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>First class M.Sc in Biotechnology/ Pharmaceutical Science/ Organic Chemistry.</li> <li>Applicant must be qualified in any one of the following tests: CSIR/UGC/ICMR including Lectureship (Assistant Professorship) OR GATE. National Level examination DST, DBT, MoE, ICMR, IIT etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preference will be given to candidates having one year experience in natural product isolation from plants.</li> </ul>
	Junior Research Fellow (One No.) in Biodiversity & Paleobiology (Plant) Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>First class in M.Pharm/ M.S. (Pharm.)</li> <li>Applicant must be qualified in any one of the following tests: GATE/GPAT/CSIR-NET or equivalent examination.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>One year of experience with respect to plant extracts/ purified compounds/ formulations.</li> <li>Specialization in Quality Assurance.</li> </ul>
6. Monthly stipend	₹ 37,000 + HRA (As applicable)		
7. Age limit (as on date of interview)	30 Years as on closing date of advt. (Relaxation will be applicable for the OBC, SC, ST etc. categories according to Govt of India regulations.)		
8. Last date for receipt of Online Application	<b>15<sup>th</sup> March 2025 (Saturday)</b>		
9. Display of the shortlist of candidates for online interview	<b>18<sup>th</sup> March 2025 (Tuesday)</b>		
10. Day, Date & time of Online Interview	<b>21<sup>st</sup> March 2025 (Friday) at 11:00 am Onwards</b>		
Note: No T.A. is admissible for attending the interview and the selected candidate will have no right for appointment against any ARI or funding agency's post/s.			

